

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

30 जुलाई 2019

जामिया ने शार्ट टर्म एंटरप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट प्रोग्राम के दाखिले की मियाद बढ़ाई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए विभिन्न एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स:ईडीपी: में दाखिलों के आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा कर 05 अगस्त 2019 कर दी है। इन कोर्स के दाखिलों के लिए, देश भर से छात्रों की गहरी रुचि को देखते हुए ऐसा किया गया है।

इस सेंटर में पीईटी बोटल निर्माण और पेयजल पैकेजिंग, बेकरी उत्पाद, मसाले पीसने और पैकेजिंग, पेपर कप..ग्लास. प्लेट्स निर्माण और टेलरिंग तथा कढ़ाई संबंधी ईडीपी के कोर्स के लिए दाखिले खुले हैं।

इन कोर्सों के अलावा, सेंटर ने इस अकादमिक वर्ष से चार नए कोर्स भी शुरू किए हैं। ये कोर्स हैं: सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशन..एसेम्बली लाईन.. पैकेजिंग, सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: बेसिक ट्रेनिंग, सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: एडवांस ट्रेनिंग।

सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: बेसिक ट्रेनिंग, सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: एडवांस ट्रेनिंग कोर्स, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एनएसआईसी:नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन: के सहयोग से शुरू किए गए हैं।

लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन:एलबीआई: सेंटर में ये कोर्स, इनोवेशन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एनएसआईसी योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद, स्टार्ट-अप कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

जस्ट क्लीन रोजगार नामक एक संगठन, इन कोर्स को पूरा करने वाले सफल उम्मीदवारों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने की पेशकश की है।

पीईटी बाँटल मेकिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्पाइस गिं्रडिंग एंड पैकिंग, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, टेलरिंग और कढ़ाई कोर्स की न्यूनतम योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है। ये कोर्स 8 हफ्ते चलेंगे।

सीएनसी: कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: बेसिक ट्रेनिंग के लिए भी आठवीं पास होना जरूरी है। इस कोर्स की मियाद 45 दिन है।

सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग आँफ फैक्ट्री आँपरेशन..एसेम्बली लाइन..पैकेजिंग एंड सीएनसी एडवांस ट्रेनिंग के दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास या उसके बराबर होना जरूरी है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग आँफ फैक्ट्री आँपरेशन..एसेम्बली लाइन..पैकेजिंग कोर्स, एक महीने का है जबकि कंप्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन: एडवांस ट्रेनिंग, दो महीने चलेगी।

इच्छुक उम्मीदवार, कार्यदिवस में, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन:एलबीआई: सेंटर से दाखिला फार्म ले सकते हैं। ये सेंटर, जामिया के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के नज़दीक है।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक